

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 177]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 11 अप्रैल 2014—चैत्र 21, शक 1936

कार्यालय, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 10 अप्रैल 2014

क्र. 30-2014-चार-उप चुनाव-310.—निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 की धारा 11 (2) के अन्तर्गत 144-विदिशा विधान सभा के उप चुनाव के लिए निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची फार्म "7-क" सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है.

जयदीप गोविन्द, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश.

प्ररूप-7 क

[नियम 10 (1) देखिये]

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची

144-विदिशा निर्वाचन क्षेत्र से विधान सभा के लिये उप-निर्वाचन

क्रम संख्यांक (1)	अभ्यर्थी का नाम (2)	अभ्यर्थी का पता (3)	दल सहबद्धता* (4)	आवंटित प्रतीक (5)
----------------------	------------------------	------------------------	---------------------	----------------------

(i) मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य राजनैतिक दलों के अभ्यर्थी

1.	कल्याण सिंह ठाकुर	ग्राम तिलक, पोस्ट ठर, तहसील व जिला विदिशा.	भारतीय जनता पार्टी	कमल
2.	शशांक भार्गव	8, राजीव नगर, विदिशा (म. प्र.).	इंडियन नेशनल काँग्रेस	हाथ

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(ii) रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक दलों के अभ्यर्थी (मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य राजनैतिक दलों में भिन्न)				
3.	अजय दुबे	6, कृष्णा कालोनी, दुर्गानगर, विदिशा (म. प्र.)	समता समाधान पार्टी	बिजली का खंभा
4.	कल्याणसिंह ठाकुर	म. क्र. 89, मढ़ी चौबीसा होमगार्ड, विदिशा.	हिन्दुस्तान जनता पार्टी	अलमारी
5.	“नौनीतराम कुशवाह”	ग्राम—करैया हवेली पोस्ट-उदयगिरि तह. व जिला विदिशा.	महानवादी पार्टी	हॉकी और बॉल
6.	पं. भूपेन्द्र शर्मा	12, मेन रोड, श्रृद्धानंद पथ, विदिशा.	समाजवादी पार्टी	नारियल
7.	हुकमसिंह	रविदास मार्ग, वार्ड क्र. 26 विदिशा.	बहुजन मुक्ति पार्टी	चारपाई
(iii) अन्य अभ्यर्थी				
8.	कल्याणसिंह ठाकुर	म. क्र. 20, दुर्गा नगर होमगार्ड, विदिशा.	निर्दलीय	एअरकंडीशनर
9.	ठाकुर तुलसीराम	ग्राम कराखेड़ी पोस्ट मिर्जापुर तहसील व जिला—विदिशा.	निर्दलीय	ऑटो-रिक्शा
10.	रामसिंह रघुवंशी (रामू भैया) पेपर वाले.	वार्ड क्र. 32, विजयनगर, अहमदपुर रोड, विदिशा.	निर्दलीय	गुब्बारा
11.	लक्ष्मनराव नवले	35, एल.आई.जी., वार्ड नं. 13, सांची-जिला रायसेन (म. प्र.).	निर्दलीय	फलों से युक्त टोकरी

स्थान : विदिशा

तारीख 9-4-2014.

(अरुण कुमार सिंह)

रिटर्निंग आफिसर,
विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, 144-विदिशा
जिला विदिशा (म.प्र.).

Conduct of Elections Rules, 1961
(Statutory Rules and Orders)

I[FORM 7A
[See rule 10 (i)]

LIST OF CONTESTING CANDIDATES

By Election to the Legislative Assembly from the AC 144-VIDISHA Constituency

Sl. No. (1)	Name of candidate (2)	Address of Candidates (3)	*Party affiliation (4)	Symbols allotted (5)
(i) Candidates of recognised National and State Political Parties				
1.	Kalyan Singh Thakur	Village-Tilak, Post-Tharr, Teh. & Dist. Vidisha.	Bharatiya Janata Party	Lotus
2.	Shashank Bhargava	8, Rajeev Nagar, Vidisha (M.P.)	Indian National Congress.	Hand
(ii) Candidates of Registered Political Parties (other than recognised National and State Political Parties)				
3.	Ajay Dubey	6, Krishna Colony, Durga Nagar, Vidisha (M.P.).	Samata Samadhan Party.	Electric Pole
4.	Kalyan Singh Thakur	H. N. 89, Madi Chaubisa Homegaurd, Vidisha.	Hindustan Janta Party	Almirah
5.	“Nounitaram Kushva”	Village-Karaiya Haweli, Post-Udaygiri, Teh. & Dist. Vidisha.	Mahanwadi Party	Hockey and Ball
6.	Pt. Bhupendra Sharma	12, Main Road Shradhanand Path, Vidisha.	Samajwadi Party	Coconut
7.	Hukam Singh	Ravidas Marg, Ward No. 26, Vidisha.	Bahujan Mukti Party	Cot
(iii) Other Candidates				
8.	Kalyan Singh Thakur	H. No. 20, Durga Nagar, Homegaurd, Vidisha.	Independent	Air Conditioner
9.	Thakur Tulsi Ram	Village-Karakhedhi, Post-Mirjapur, Teh. & Dist. Vidisha.	Independent	Auto-Rickshaw

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
10.	Ram Singh Raghuwanshi (Ramu Bhaiya) Paper Wale	Ward No. 32, Vijay Nagar, Ahmadpur Road, Vidisha.	Independent	Balloon
11.	Lakshman Rao Nawle	35, LIG, Ward No. 13, Sanchi, Dist. Raisen (M. P.).	Independent	Basket containing Fruits

Place : Vidisha

Date 09-04-2014

(ARUN KUMAR SINGH)
Returning Officer
AC-144, Vidisha,
Dist. Vidisha.